

SILGO RETAIL LIMITED

CIN: L36911RJ2016PLC049036

SIL/JAI/21-22

Date: 06.10.2021

The Manager,
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza",
Bandra-Kurla Complex,
Bnadra(East), Mumbai- 400 051
INDIA

Symbol: SILGO

Dear Sir/Madam,

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT – DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 ("SEBI LISTING REGULATIONS")

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi- Vernacular), in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, intimating that 6th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, November 01, 2021 at 1:00 pm IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The above information is also available on the website of the Company www.sligo.in

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully, SILGO RETAIL LIMITED

TRIPTI SHARMA

(CS & COMPLIANCE OFFICER)

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (under Rule 8 (1)) **GHAZIABAD**

Rs.

Whereas, The undersigned being the authorised officer of the UNION BANK OF INDIA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagor and also owner of the property/sureties to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this mentioned the date. The borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the payment of notice amount and interest thereon to the UNION BANK OF INDIA, LOHAMANDI BRANCH GHAZIABAD. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Description of Immovable Property Demand Notice Possession Date of Date of Outstanding Borrower/Guarantor Amount Borrower: Mrs Kamlesh Yadav W/o Property: Sale Deed No. 4532 dated 09.04.2021 01.10.2021 1570541.93 Ramesh Chand Yadav, H.No. DD-88, Block 04.11.2010, Bahi No. 1, Jild No. 2472 + interest -DD, Ansal's Avantika (Chirangiv Vihar), on pages 283-301. Residential Hapur Road, Ghaziabad- 201002, Uttar Property situated on H.No. DD-88, thereon from 31.03.2021 Pradesh. Co-Borrower: Mr. Ramesh Yadav Block-Dd, Ansal's Avantika, (Chiranjiv S/o Hoshiyar Singh, H.no. DD-88, Block- Vihar), Hapur Road, Ghaziabad, Pin DD, Ansal's Avantika (Chirangiv Vihar), Code 201002, Uttar Pradesh, Hapur Road, Ghaziabad-201002, Uttar Measuring area 200.00 Sq. Mtr in the Pradesh. Guarantor: Mr. Kuldeep Kumar name of Mrs. Kamlesh Yadav W/o Garg S/o Ram Avtar Garg, H.No. 202, KM- Mr. Ramesh Yadav. Boundaries: 19. Kavinagar, Ghaziabad- 2010003, East: Plot No. PDD 89, West: Plot No. Uttar Pradesh. PDD-87, North: Plot No. PDC 89, South: 12 Mtrs wide. Date: 05.10.2021 Place - Ghaziabad

Authorized Officer, Union Bank of India OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - II

SALE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II. DELHI PROCLAMATION 4" FLOOR JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI : 110001 R.C. No. 06/2016 PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH

THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993 CORPORATION BANK VS M/S SRS ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD.

CD#1. M/s SRS Advertising & Marketing Pvt. Ltd. Through its Director Sh. D. S. Mehdhiratta, 303, Avadh Complex, D-5, Laxmi Nagar, Delhi-92

CD#2. Sh. Davinder Singh Mehdhiratta, B-227, Vivek Vihar, Delhi-110095 CD#3 Ms. Gurpreeta Kaur, B-227, Vivek Vihar, Delhi-110095

The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

Whereas as per Recovery Certificate No. 06/2016 dated 01.03.2016 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I mentioning a sum of Rs. 1,38,85,742/- (Rs. One Crore Thirty Eight Lacs Eighty Five Thousand Seven Hundred Forty Two Only), CDs are jointly and / or severally liable to pay the amount of Rs.1,37,45,742/- (Rs. One Crore Thirty Seven Lacs Forty Five Thousand Seven Hundred Forty Two Only) alongwith future interest @12% p.a. from the date of filing of the OA i.e. 04.02.2014 until recovery with cost. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said Recovery

Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "online Electronic Bidding" through the website https:// bankauctions.in on 10.11.2021 between 11a.m.to 12 noon with extensions of 5 minutes duration after 12 noon, if required.

4. The sale shall be of the property of the CD(s) above-named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot. 5. The property shall be put up for the sale as specified in the schedule. If the amount to be realized by sale is satisfied by the sale of a

portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale will also be stopped if, before auction is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or

attempt to acquire any interest in the property sold. . The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made

thereunder and to the following further conditions:-.1 The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but tle undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

7.8 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold

The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without COURDING OF BRODERTY

	3	CHEDULE OF PROP	EKIY	
Lot No.	Description of the property to be sold	Revenue assessed upon the property or any part thereof	Details of any encumbrance to which property is liable	Claims, if any, which have been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value.
1.	Khasra No. 833, plot no. 224, At Doon Height, Mauza Kanswali Kothari, Vikas Nagar, Dist. Dehradun.	Not Known	Not Known	Not Known
2.	Khasra no. 786 at Doon Height, Mauza Kanswali Kohari, Vikas Nagar, Dist. Dehradun	Not Known	Not Known	Not Known
3.	Khasra No. 786 At Doon Height, Mauza Kanswali Kothari, Vikas Nagar, Dist Dehradun	Not Known	Not Known	Not Known
4.	Khasra No. 556 At Doon Height, Mauza Kanswali Kothari, Vikas Nagar, Dist	Not Known	Not Known	Not Known

Respondents

Dehradun Given under my hand and seal on 06.09.2021

4

VERSUS

OA No. 22/2019


Corporation Bank

Rahul Kumar & Ors.

Email: care@futureworldcare.com

Hon'ble Tribunal on 12.10.2021 at 10.30 A.M.

Videos Conferencing and for that purposes:-



(Dattatrey Bajpayee)

PARTICULARS

10 Address & e-mail to be used for

Date and place: : 05.10.2021, Delhi

September 17, 2021.

11 Last Date For Submission Of Claims | 05/11/2021

1 Name of Corporate Debtor **GEM BATTERIES PVT. LTD.** 2 Date of Incorporation of Corporate 13/08/2003 Authority under which Corporate ROC - Delhi Debtor is Incorporated/ Registered 4 Corporate Identity No. / Limited Liability U31909DL2003PTC121756 Identification No. of Corporate Debtor Address Of The Registered Office Registered Address: And Principal Office (if Any) Of B-II/11, Mohan Cooperative Industrial Corporate Debtor Estate Badarpur New Delhi - 110044 6 Date of closure of Insolvency 18/08/2021 **Resolution Process** Liquidation commencement date 17/09/2021 (order received on 1 st Oct, 2021 of Corporate Debtor Name and registration number of Chandra Prakash the insolvency professional acting (IBBI/IPA-002/IP-N00660/2018-2019/12023 as Liquidator Name: Chandra Prakash 9 Address and e-mail of the Liquidator Address: 812, 8 th Floor, Indra Prakash as registered with the Board

correspondence with the Liquidator Building, Barakhamba Road, India-110001

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi-Bench II

has ordered the commencement of liquidation of the Gem Batteries Pvt Ltd on

The stakeholders of Gem Batteries Pvt. Ltd are hereby called upon to submit their

claims with proof on or before 05.11.2021 to the liquidator at the address mentioned

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All

other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic

SILGO RETAIL LIMITED

Registered Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, Jawahar lai Nehru Marg, Jaipur-302017

E-Mail: info@silgo.in CIN: L36911RJ2016PLC049036

WEBSITE: www.silgo.in Phone No.: +91-0141-4919655

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixth (6th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company

will be held on Monday, 01November, 2021 at 01:00 P.M. through Video Conferencing

("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular

Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 08thApril 2020, 13thApril 2020,

05thMay 2020and 13th January 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate

Affairs ("MCA Circular(s)") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated

15thJanuary 2021 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular"),

The Notice of the 6th AGM and Annual Report for the F.Y. 2020-21will be sent only by e-

mailto all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository

Participant(s). The above documents are also available on the Company's website

i.e.www.silgo.in andthe website of the NSE Limited www.nseindia.com. Those

Shareholders whose email lds are not registered with their Depositories shall get it

registered with Company/Depositories. The requirement of sending physical copy of the

Notice of 6thAGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA

Members can join the Meeting through VC/OAVM means only. The instruction for joining the

6th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-

Process for those Shareholders whose E-mail Addresses are not registered with the

Depositories for obtaining Login Credentials for E-Voting for the Resolutions Proposed in

For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested

scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by

beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, client master or copy of

Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card),

AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Company mail id cs@silgo.in

Company Secretary

email to Company's mail id cs@silgo.in & RTA email idinfo@bigshareonline.com.

For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16-digit

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Name and signature of liquidator: Chandra Prakash

without the physical presence of the Members at a common venue.

voting system during the 6th AGM are provided in the Notice of 6th AGM.

Circular(s) and SEBI Circular mentioned above.

&RTAemail idinfo@bigshareonline.com

Place: Jaipur

Date :06.10.2021

GEM BATTERIES PVT. LTD.

DETAILS

Building, Barakhamba Road, India-110001

E – mail: cppumba2409@gmail.com

Address: 812, 8 th Floor, Indra Prakash

E mail: ip.gemcirp@gmail.com

No.

(i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/Software; (ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be

NEW DELHI-110001

The Managing Director, M/s Future World Green Homes Pvt. Ltd., Rego

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs

19,74,429/- (Rupees Nineteen Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred and

Twenty Nine Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction

of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this

notice is given by advertisement directing you to make appearance before

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day

before this Tribunal, the case will be heard and decided in your details kindly visit

DRT website www.etribunal.gov.in Phone Number: 011-23748473.) absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through

M/s Future World Green Homes Pvt. Ltd., Corporate Office: D-247/1,

Office S-222, School Block, Shakarpur, New Delhi- 110092.

Sector- 63, Noida, Landline No. 0120-4567893, 0120-4336999,

taken by 'Registrar/Tecovery Officer-I/and Recovery Officer-II shall be available

one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "drt.gov.in" under the Public Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned

official at Ph. No. 011-23748473. Given under my hand and seal of the Tribunal son this 01st September of 2021.

By order of this Tribunal For Registrar

FORM A				
PUBLIC ANNOUNCEMENT				
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India				
	Corporate Persons) Regulations, 2016)			
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF DHSL TEXTILES (INDIA) LIMITED				
RELEVANT PARTICULARS				
Name of Corporate Debtor	DHSL Textiles (India) Limited			

1.	Name of Corporate Deptor	DHSL Textiles (India) Limited
2.	Date of Incorporation Of Corporate Debtor	19/12/1984
3.	Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No.of corporate debtor	L51900DL1984PLC019624
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	04.10.2021
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	02.04.2022 i.e., 180 days from Insolvency Commencement Date
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mohd Nazim Khan Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

9. Address and e-mail of the interim Address: G-41, Ground Floor, West Patel Nagar resolution professional, as registered with New Delhi-110008 Email: nazim@mnkassociates.com Address: G-41, Ground Floor, West Patel Nagar, 10. Address and e-mail to be used for New Delhi-110008 correspondence with the interim E-mail id: cirp.dhsltextiles@gmail.com resolution Professional

11. Last date for submission of claims 18-10-2021 12. Classes of creditors, if any, under clause(b) No Class of Creditors could be ascertained at this of sub-section (6A) of section 21, ascertained stage. by the interim resolution professional

13. Names of Insolvency Professionals identified to No Class of Creditors could be ascertained at this act as Authorised Representative of creditors in stage accordingly no Authorized Representative is a class (Three names for each class) 14 (a) Relevant Forms and WEB LINK: https://ibbi.gov.in/home/download (b)Details of authorized representatives Not Applicable in view of Column 13

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench-IV, has ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process of DHSL Textiles (India) Limite

on 04.10.2021 The Creditors of DHSL Textiles (India) Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 18.10.2021 to the Interim Resolution Professional at the address mentione against entry No. 10.

The operational creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. The submission of proof of claims should be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency

and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of following specified forms: Form B for claims by Operational Creditors except Workmen and Employees; Form C for claims by Financial Creditors;

Form D for claims by workmen and Employees;

Financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Form E for claims by Authorized Representatives of Workmen and Employees Form F for claims by Creditors other than Financial Creditors and Operational Creditors. **Mohd Nazim Khan** Date: 05.10.2021 Interim Resolution Professional IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

PUBLIC NOTICE DELICIOUS COCO WATER PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION Proposed E-Auction on 16th October 2021

Notice is hereby given that the proposed E-Auction on 16th October 2021 in the above matter, would not be held, in view of the order of NCLT to maintain status-quo, till the time the decision on the scheme on merit under section 230 of the Companies Act 2013 is taken by the creditors.

Kishan Gopal Somani - Liquidator IBBI Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-18/10544 KG Somani Insolvency Professionals Private Limited Address: 3/15, 4th Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 Email id: kgs.deliciouscocowater@gmail.com, Contact Number: 011-41426262, 011-23277677, 9310182010



punjab national bank .. Together for the better

Fazilka Date:14-09-2021

indianexpress.com

Borrower: M/s Krishan Lal & Proprietor: Desh Bhushan S/o Guarantor: Sanjiv Sethi S/o Sons Address: Shop No.78 New Krishan Lal, Address: Shop No.78 Desh Bhushan, Address: H Grain Market Kotkapura, Green New Grain Market Kotkapura, No.168 Prem Nagar Ward No.3 Enclave St No.1B/s Nirankari Green Enclave St No.1B/s Nirankari Part-2, Kotkapura-151204. Bhawan , kotkapura-151204 Bhawan , kotkapura-151204.

Part-2, Kotkapura-151204. Dear Sir.

NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

You, M/s krishan Lal & Sons have availed the following credit facilities From BO: Kotkapura Satta

Bazaar-Sol Id -(007710) Sr No Encility Limit (Lakh) Dalance Outstanding as on 30 06 2021

SI, NO,	racinty	Limit (Lakii)	Balance Outstanding as on 30.00.2021		
1.	Over Draft	35.00 (Thirty Five Lakh)	3615024.93 + future intt & Charges		
TO	OTAL	35.00 (Thirty Five Lakh)	3615024.93+ future intt & Charges		
Due to non	-payment of instal	ment/interest/principal debt the	account/s has/ have been classified as		

Non-Performing Asset on 30.06.2021 as per Reserve Bank of India guidelines. We have already demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above acilities from the Borrower, vide letter dated 03.09.2021, copy of which has already been sent to you We have invoked the guarantee vide letter dated 03.09.2021 The amount due to the Bank as on 30.06.2021 is Rs 3615024.93 (Rupees Thrity Six lakh Fifteen

(hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstanding under the above said facilities, you have, interalia, created security interest in

respect of the following properties/assets: Facility Security

1.	Over Draft	EQM of the commercial shop no.78 measuring 277.77 Sq Yds Situated at New Grain Market regd in name of Sanjeev Sethi S/o Desh bhushan Sethi vide Deed No.3538 dated 31.03.2005.
Twe	nty Four And I	n you to pay the amount of Rs 3615024.93 (Rupees Thrity Six lakh Fifteen Thousand Vinety Three Paisa Only) with further interest on the contracted rate until payment in full (ty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the
Bank	k available und	fer Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under

section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of non-payment of secured debt by you are as under:

name of Sanieev Sethi S/o Desh bhushan Sethi vide Deed No.3538 dated 31.03.2005. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time

available to redeem the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any

contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realised shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will be liable to render proper account of *We reserve our rights to enforce other secured assets.

Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of noncompliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences.

This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may

*Delete, if inapplicable Yours faithfully, For Punjab National Bank

Kuldip Kumar (Chief Manager), AUTHORISED OFFICER

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on advertisement in any manner whatsoever.



SASTRA DIVISION, 3RD FLOOR, EAST WING, PLOT NO. 4, SEC. 10, DWARKA NEW DELHI. (email- horecovery@pnb.co.in/hosastrawilful@pnb.co.in)

SHOW CAUSE NOTICE

. M/s Vadraj Cement Ltd. - 3rd Floor, Lioyds Point, AS Marathe Road, Prabhadevi, Mumbai 400025

2. Mr. Rishi Kamlesh Agarwal (Promoter Director)- 7a/B, Somerset Place, 61d Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026

Dadar East, Mumbai 400014

4. Mr. Viyay Prakash Sharma (Director)- B-23, Law Apartments, Karkardooma, new Delhi

5. Mr. Krishna Gopal Toshniwal (Director)- B-1903, Lakshchandi Heights, Off Gen AK Vaidya Marg, Gokuldham, Goregaon (East), Mumbai 400063

6. M/s ABG Cement Holdco Pvt. Ltd (Corporate Guarantor)- 2nd Floor, Bhupati Chambers,

7. M/s ABG International Pvt. Ltd. (Corporate Guarantor)-Bhupati Chambers, 13, Mathew

Road, Opera House Mumbai 400004

Dear Sir(s)/Madam(s),

Reg.: Show Cause for Identification of default in the loan account of M/s Vadrai

Cement Limited with the Bank, as "Wilful" Please refer to notice dated 08.07.2021 issued by the bank vide which the event(s) of wilful

default perceived in the captioned loan account has been pointed out and you thereby called upon to rectify the default/s within 10 days of receipt of the said notice. However, you

failed/neglected to take any action thereto. The facts of the matter were placed before the Committee for Identification of Wilful

The Committee, in its meeting held on 21.08.2021, after going through facts of the matter& evidence on record, has concluded that events of default/s has occurred in the account which are wilful and substantial to classify you as 'Wilful Defaulter', inter alia for the following reasons:

they have capacity to honour the said obligations.

Name of Guarantors Nata Maans

Name of Guarantors	ivate ivicalis			
Sh. Rishi Kamlesh Agarwal	Rs. 26.61			
M/s ABG Cement Holdco Pvt. Ltd	Rs. 628.52			
M/s ABG International Pvt. Ltd. Rs. 665.90				
Diversion of Funds 1. The company diverted funds to the tune of Rs.107.37 Crore and siphoned funds to the				

tune of Rs.0.64 Crore. 2. Frequent transactions with companies having common directors - Rs.25.77 Crore paid to these companies, which are shell companies operated on paper by ABG group.

3. Rs.111.90 Crore paid and Rs.88.01 Crore received from M/s Mahavir Distributors Pvt. Ltd., an undisclosed interconnected concern of VCL. The amount was not related to the 4. Company has utilized short term working capital funds for long term purposes.

Khaimah-Free Trade Zone, in a tax heaven based in UAE. Based on the financials it is observed that massive uneven financial development took place in that particular branch. This Branch contributed almost 100% of total revenue reported by the Comapany in FY 2011-12 and FY 2012-13. On the third year of its incorporation viz. FY 2014-15, Branch has sold off all inventory on scrap value equivalent to around 2.04% of book value leads to a loss of AED 239.70.752. It indicates possible diversion of funds committed by company through opening dummy branch in UAE. 6. Trade receivables are reduced drastically from Rs.3.49 Crore to Rs.0.32 Crore i.e. by

trade receivable is reduced by only Rs.2.80 Crore.

8 Interest free loan to subsidiaries which was pending for long time. 9 Debentures issued to related parties for Rs. 44.25 Crore later converted to equity shares.

In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the Identification Committee, you may make a submission/representation, if you so desire, to the Identification Committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as "Wilful Defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent either to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or through the Zonal SASTRA Mumbai.

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of the Identification Committee. Please take note that pursuant to submission/ non submission of your show cause, the Wilful Defaulter as per the RBI guidelines.

> (Ashok Kumar Mishra) **Member of Identification Committee**

HDFC BANK

Retail Portfolio Management : Plot # 31, Najafgarh Industrial Area,

FINANCIAL EXPRESS

"APPENDIX- IV-A

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

 s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 16th November 2021, for recovery of Rs. 1,05,72,053/- o/s as on 01.10.2018 along with further nterest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from (i) M/s Baba Amarnath Trading Co. Through Its Proprietor Mr. Deepak Singh, (ii) Mr. Deepak Singh & (iii) Mrs. Kavita. The reserve price will be Rs. 40,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd. Secured Creditor's website https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-

Authorised Officer

Place: - Delhi

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक ...the name you can BANK upon SASTRA DIVISION, 3RD FLOOR, EAST WING, PLOT NO. 4, SEC. 10, DWARKA

SHOW CAUSE NOTICE

07.09.2021

1. Mrs Davinder Kaur Bedi W/o - Late Jitendra Pal Singh. D 169, Lajpat Nagar, Part 1 New Delhi- 110024

Dear Sir(s)/Madam(s), Reg.: Show Cause for Identification of default in the loan account of Mrs. Davinder Kaur Bedi with the Bank, as "Wilful"

wilful default perceived in the captioned loan account has been pointed out and you thereby called upon to rectify the default/s within 10 days of receipt of the said notice. However, you failed/neglected to take any action thereto. The facts of the matter were placed before the Committee for Identification of Wilful

of the matter& evidence on record, has concluded that events of default/s has occurred in the account which are wilful and substantial to classify you as 'Wilful Deftaulter', inter alia for the following reasons: Diversion of Funds

said amount was transferred to A/c of AS Hospitality Pvt Ltd on the same day The borrower has diverted Bank's fund Siphoning of Funds

The Borrower has availed loan fraudulently by creating mortgage on the basis of false and fabricated documents thereby siphoned Bank's fund. In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the Identification Committee.

"Wilful Defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent either to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or through the Zonal SASTRA Mumbai. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that

The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the

MAXE

OMAXE LIMITED (CIN: L74899HR1989PLC051918) Regd. Office: Shop No-19 B. First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram, Harvana-122001, Corp. Office: Omaxe House, 7, Local Shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-110019 Tel: 011-41896680-85; Fax: 011-41896653

Email: secretarial_1@omaxe.com | Website: www.omaxe.com

NOTICE OF 1/2021-22 EXTRA ORDINARY

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular') and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), Notice is hereby given that 1/2021-22 Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of Omaxe Limited ('the Company') will be held on Wednesday, October 27, 2021 at 12:00 noon through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Special Businesses as stated in the Notice convening the said EGM.

URL: https://instameet.linkintime.co.in Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on proposed resolutions to be passed at the EGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off/record date which is Wednesday, October 20, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-

The e-voting period will commence on Sunday, October 24, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, October 26, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the EGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for e-voting which forms part of the Notice of the EGM before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instameet.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact at 022-49186175 or at designated e-mail ID instameet@linkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company

requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address, and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or by contacting our RTA Link Intime India Private Limited.

by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice.

Facility of joining the EGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time

Members, who would like to ask questions during the EGM need to register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email address investors@omaxe.com or by downloading and installing the Webex application by clicking on the link https://www.webex.com/downloads.html/ from October 24, 2021 at 9.00 am (IST) to October 26, 2021 at 5.00 pm (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the EGM, depending upon the availability of time. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the EGM.

Company Secretary

We understand your world

Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015,

[See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor

Short description of the immovable property PLOT / PROPERTY BEARING NO. 2382-T-29/3, (MEASURING 71 SQ. YDS. OUT OF TOTAL 448 SQ. YDS.) OUT OF KHASRA NO. 260, VILLAGE MAMOORPUR, MANDI EXTENSION,

Date: - 05.10.2021 HDFC Bank Ltd.

NEW DELHI. (email- horecovery@pnb.co.in/hosastrawilful@pnb.co.in)

Please refer to notice dated 25.06.2021 issued by the bank vide which the event(s) of

Defaulters ('Identification Committee') constituted In consonance with the RBI guidelines. The Committee. in its meeting held on 21.08.2021, after going through facts

Rs 0.81 Cr was transferred from OD-IP A/c to SB A/c of the borrower and thereafter the

you may make a submission/representation, if you so desire, to the Identification Committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as

you have nothing to say in your defence against the conclusion of the Identification Committee. Please take note that pursuant to submission/ non submission of your show cause, the Identification Committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the Wilful Defaulter as per the RBI guidelines.

> (Ashok Kumar Mishra) **Member of Identification Committee**

GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and

In compliance with the provisions of MCA vide its Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the EGM together with explanatory statements, the instruction for e-voting and participation in the EGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI Circulars. The electronic dispatch of Notice of the EGM to the Members has been completed on October 05, 2021. The Notice of the EGM along with explanatory statement are also available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, October 20, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in or contact at 022-49186175.

Secretary at investors@omaxe.com. Members who have not registered their email ID with the depository participants, are

Members may participate in the EGM through VC/ OAVM at https://instameet.linkintime.co.in / by using their remote e-voting login credentials and

Members, who need technical assistance before or during the EGM, can contact RTA at https://instameet.linkintime.co.in.

Date: October 05, 2021 New Delhi

Circle Sastra

Name: Sanjiv Sethi S/o Desh Bhushan (Guarantor), Address: HNo.168, Prem Nagar Ward No.3,

Reg: Account No. 00775015002378 (OD GEN) availed by M/s Krishan Lal & Sons through its proprietor Desh Bhushan S/o Krishan Lal.

Thousand Twenty Four And Ninety Three Paisa Only) with further interest until payment in full

EQM of the commercial shop no.78 measuring 277.77 Sq Yds Situated at New Grain Market regd in

such realisation/income.

"This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

IMPORTANT

3. Mr. Atul Zade (Director)- A-112, 1st Floor, Aradhana CHS, G D Ambedkar Road, Naigaon

13. Mathew Road, Opera House, Mumbai 400004

Defaulters ('Identification Committee') constituted in consonance with the RBI guidelines.

Capacity to Pay Borrower/ Guarantors have defaulted in meeting their repayment obligations, even when

Rs. in crores

5. Company has incorporated an overseas branch during the year 2012-13 at Ras-al-

Rs.3.17 Crores. However as per Cash Flow Statement for the same period as reported, 7. Unsecured loan decreased by Rs.41 Crere during the FY 17-18.

undersigned to send this show cause notice under his signature.

NOTICE

off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in

again through e-voting facility during the EGM.

selecting the 'Event' for Company's EGM. Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same

scheduled for the EGM and will be available for Members on first come first served basis.

By order of the Board For Omaxe Limited

Navin Jain

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Identification Committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to SILGO RETAIL LIMITED send this show cause notice under his signature. Place: New Delhi TRIPTI SHARMA

रिटेल पोर्टफोलियो प्रबंधः प्लॉट #31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया HDFC BANK टावर ए. 1ला तल. शिवाजी मार्ग. मोतीनगर. नई दिल्ली-110015 We understand your world ''परिशिष्ट-IV -ए''

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-निलामी बिक्री सुचना

एतदुद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारंटर(रों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभृति क्रेडीटर के प्राधिकत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की i) मै. शिवम ड्रम सप्लाई कम्पनी, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री संदीप खराना, ii) श्री संदीप खराना एवं iii) श्रीमती मोना खराना से एचडीएफसी बैंक लि. प्रतिभति क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लाग होने वाले चार्जेज के साथ 1.8.2018 को बकाया रू. 3585668/- की वसुली के लिये 15 नवम्बर, 2021 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 32,00,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 3,20,000/- होगी। अचल सम्पत्ति का संक्ष्प्ति विवरण

प्लॉट नं. 3 , खसरा नं. 614 का भाग, ग्राम बसई दारापुर, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली में निर्मित सम्पत्ति सं. ए-230 तथा पुराना नं. डब्ल्यूजेड-46(माप 48 वर्ग यार्ड्स,128 वर्ग यार्ड्स लगभग में से) में छत के अधिकार के

बिक्री के विस्तृत नियमों व शर्तों के लिये कृपया एचडीएफसी बैंक लि. प्रतिभृत क्रेडीटर की क्रेडीटर की वेबसाइट https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notice में दी गई लिंक देखें। तिथि : 5.10.2021 प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लि. स्थानः दिल्ली

सिल्गो रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-11, महालक्ष्मी नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

> ई-मेल : lnfb@silgo.ln सीआईएन : L36911RJ2016PLC049036

वेबसाइट : www.silgo.in दूरभाष नं. : +91-0141-4919655

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 1: अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, २०१५ (''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में सदस्यों की किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की छठी (6ठी) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') सोमवार, 1 नवम्बर, 2021 को 1.00 बजे अप. वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो

छठी एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.silgo.in और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी उनके डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे इसे कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करा लें। सदस्यों को 6ठी एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और उपरोक्त सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

ई-मेल आईडी info@bigshareonline.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम माध्यम से ही बैठक में शामिल हो सकते हैं। छठी एजीएम में शामिल होने के निर्देश और छठी रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका छठी एजीएम

की सचना में दिया गया है। इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों

के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं: भौतिक शेयरधारकों के लिए-कपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे). पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी की मेल आईडी cs@silgo.in तथा आरटीए की

डीमैट शेयरधारकों के लिए-कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16-अंकीय लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16-अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) कंपनी की मेल आईडी cs@silgo.in तथा आरटीए की ई-मेल आईडी info@bigshareonline.com पर ईमेल

यदि सदस्य कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो वे www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e- voting manual का सन्दर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिखें या 022-23058738 तथा 022-23058542/43 पर सम्पर्क करें।

सिल्गो रिटेल लिमिटेड स्थान : जयपुर तिथि : 06.10.2021

तृप्ति शर्मा कम्पनी सचिव

MAXE

OMAXE LIMITED (CIN: L74899HR1989PLC051918) Regd. Office: Shop No-19 B, First Floor, Omaxe Celebration Mall. Sohna Road, Gurugram, Haryana-122001. Corp. Office: Omaxe House, 7, Local Shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-110019 Tel: 011-41896680-85; Fax: 011-41896653 Email: secretarial_1@omaxe.com | Website: www.omaxe.com

NOTICE

NOTICE OF 1/2021-22 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular') and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), Notice is hereby given that 1/2021-22 Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of Omaxe Limited ('the Company') will be held on Wednesday, October 27, 2021 at 12:00 noon through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Special Businesses as stated in the Notice convening the said EGM.

In compliance with the provisions of MCA vide its Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the EGM together with explanatory statements, the instruction for e-voting and participation in the EGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI Circulars. The electronic dispatch of Notice of the EGM to the Members has been completed on October 05, 2021. The Notice of the EGM along with explanatory statement are also available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on proposed resolutions to be passed at the EGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off/record date which is Wednesday, October 20, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in

The e-voting period will commence on Sunday, October 24, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, October 26, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the EGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility during the EGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, October 20, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in or contact at 022-49186175.

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for e-voting which forms part of the Notice of the EGM before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instameet.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact at 022-49186175 or at designated e-mail ID instameet@linkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at investors@omaxe.com.

Members who have not registered their email ID with the depository participants, are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address, and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or

by contacting our RTA Link Intime India Private Limited, Members may participate in the EGM through VC/ OAVM at https://instameet.linkintime.co.in / by using their remote e-voting login credentials and selecting the 'Event' for Company's EGM. Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same

Members, who need technical assistance before or during the EGM, can contact RTA at https://instameet.linkintime.co.in.

by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice.

Facility of joining the EGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the EGM and will be available for Members on first come first served basis. Members, who would like to ask questions during the EGM need to register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email address investors@omaxe.com or by downloading and installing the Webex application by clicking on the link https://www.webex.com/downloads.html/ from October 24, 2021 at 9.00 am (IST) to October 26, 2021 at 5.00 pm (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the EGM, depending upon the availability of time. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the EGM.

> By order of the Board For Omaxe Limited

> > Sd/-

Place: New Delhi Navin Jain Date: October 05, 2021 **Company Secretary** साकातक कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, पंजाकत कार्यालयः आइसाआइसाआइ वक दान बन्दा (इंस्ट) सम्बर्ड-100051 कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अन्धेरी कुर्ला रोड, मुम्बई-400059

शाखा कार्यालयः भू तल, 104/438 पी. रोड, सिसामऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर-208012 जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60

दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। चुंकि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का

किसी भी तरह का व्यवसाय आईसीआईसीआई होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम ऋणधारक/सह-ऋणधारक का नाम/ऋण ख सं. संख्या	व्राता सम्पत्ति का विवरण∕कब्जा की तिथि	मांग सूचना तिथि⁄मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
ा. गगन शर्मा (ऋणधारक), गुरु प्रसन्न शर्मा (सह-ऋणधारक) NHKAN00000728087	किदवई नगर हाउस नं. 128/वाई-1/452 कानपुर-208011 कब्जा की तिथिः 4.10.2021	28.5.2021 रु. 868888/-	कानपुर– बी
तिथि: 6 अक्टूबर, 2021	16	प्राधिकृत अ	
स्थानः कानपुर आईसीआई होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड			

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IVA) (नियम 8(6)) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पुर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ऑईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय ें. कार्यालय सं. १. पथम तल, महालक्ष्मी मेटो टॉवर, प्लॉट सं. सी-१. सेक्टर-४. वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल-एचएफएल के अधिकत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सिंहत कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	अचल सम्पत्ति∕प्रतिभूत आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि
1. विशान्त सरपाल, 2. अमित कुमार, 3. पूजा मनोचा (प्रॉस्पेक्ट नं. 780643)	25-जून-2019 रु. 20,48,304/- (रुपये बीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चार मात्र) संविदा वृद्धि राशि : रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	08-जून-2021 01 अक्टूबर, 2021 तक कुल बकाया रु. 24,74,769/- (रुपये चौबीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ उनहत्तर मात्र)	उत्तर प्रदेश पर स्थित सम्पात की सम्पूर्ण भाग (सुपर बिल्टअप एरिया : 1025 वर्ग फीट)	(रुपये बीस लाख मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)	08 नव. 2021 1100 बजे - 1400 बजे ईएमडी की अन्तिम तिथि 10-नव2021 को 5 बजे अप. तक ई-नीलामी की तिथि/ समय 12-नव2021 1100 बजे-1300 बजे

खाते का नाम : आईआईएफएल हो फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 53105066294, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036025 या पेमेंट लिंक nttps://quickpay.iiflfinance.com के माध्यम से

नियम एवं शर्ते : 1. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छूक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईर्ड तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छूक संविद्यकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा। .. संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वत ही 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा। 3. सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मृल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री

की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे। 4. क्रेंता को सेस, प्रयोज्य स्टाप्य शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा

. संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट https: //bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है। 6. अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124/25/26

तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पुछताछ के लिए श्री मुनि प्रधान, मोबाइल : 9873478000, ई-मेल आईडी : muni.pradhan@iifl.com से सम्पर्क कर सकते हैं। '. एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभूत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सूचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। s. एतंद्रारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।

o. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर र्ल जायेगी तथा सम्पत्ति को पनः बिक्री पर रखा जायेगा। 10. एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल-एचएफएल के एअं

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना एतद्वारा कर्जदार को निवदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कं जायेगी और शेष बकाया. यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसल किया जायेगा। तिथि : 06 अक्टूबर, 2021 स्थान : गाजियाबाद, ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

Indian Bank ALLAHABAD

केंट्र शाखा, मेरठ (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक, मेरठ केंट्र) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

त्रबंकि, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बँक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बँक) वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हेत का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 वं अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता / जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोलम में सूचना में उल्लिखित रकम को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनसंदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक माँग देय सूचना दिनांक को जारी किया ।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अघोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से सांकेतीक कब्जा कर लिया है ।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार **इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)** के प्रभार के अधीन होगा । उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के

मोचन के लिए उपलब्ध समय के सेंदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	माग नाटस की तिथि	बकाया राशि
सैनिक कॉलोनी, सरधना रोड, कंकरखेंडा, मेरठ (2) श्री सचिन मलिक पुत्र श्री कृपाल सिंह, न्यू सैनिक कॉलोनी, सरधना रोड, कंकरखेंडा, मेरठ (3) श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चरन दत्त शर्मा, 649 / 14, न्यू सैनिक कॉलोनी, सरधना रोड, मेरठ	प्लॉट नंबर 545 का पश्चिमी भाग, रिधत श्रद्धापुरी, मेरठ क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, सीमायें:-पूर्वः 11 मीटर / प्लॉट संख्या 5/45 का शेष भाग, पश्चिमः 11 मीटर/अन्य संपत्ति, उत्तरः 9.09 मीटर/ 9 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 9.09 मीटर/प्लॉट संख्या 5/44	कब्जा नोटिस की तारीख	रू 1022656.00 (यथारिथति 12.07.2021) + व्याज + अन्य खर्चे
	आवासीय फ्लैट नं. जी-1215, 11वीं मंजिल, 871 वर्ग फीट, सुपरटेक ग्रीन विलेज, मेरठ, सुपर एरिया 80.91 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 64 वर्ग मीटर, सीमार्थे:- पूर्व: आम मार्ग 5 फीट, पश्चिम: खुला क्षेत्र (नीचे), उत्तर: फ्लैट नंबर जी-1214, वक्षिण: खुला क्षेत्र (नीचे)		रू 1819133.00 (यथारिथति 09.07.2021) + ब्याज + अन्य खर्ये
मकान नंबर बी 158 ग्राउंड फ्लोर, ग्रीनवुंड सिटी, गॉडविन होटल के पास, मेरठ (2) श्रीमती गरिमा पुंडीर पत्नी श्री आशीष पुंडीर, मकान	मकान नंबर बी 158 के सभी भाग और पार्सल, ग्रावंड फ्लोर, ग्रीनवुड सिटी, मेरठ, क्षेत्रफल 1182 वर्ग फीट, सीमायें: —पूर्व:18.90 मीटर /फ्लैट नंबर बी 159, पश्चिम:18.90 मीटर/ फ्लैट नंबर बी 157 उत्तर: 8.23 मीटर / 12 मीटर रोड, दक्षिण: 8.23 मीटर / अन्य की संपत्ति	कला नाटस की तारीख	रू 2353326.00 (यथास्थिति 12.07.2021) + व्याज + अन्य खर्चे
<u>ऋणकर्ताः</u> (1) श्री संजय वशिष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार, 13 जत्तीवाडा, गंगा मंदिर के पास, मेरठ (2) श्रीमती प्रियमवदा भारद्वाज पत्नी श्री संजय वशिष्ठ, 13, जत्तीवाडा, गंगा मंदिर के पास, मेरठ	आवासीय फ्लैट नंबर 1207, 11वीं मंजिल एन टावर सुपर एरिया 780 वर्गफीट, 2 बीएचक सुपर टेक ग्रीन विलेज स्थित नूर नगर हापुड़ बाई पास रोड, भेरठ। सीमार्थ:—पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: फ्लैट संख्या 1206, उत्तर: फ्लैट संख्या 1208, दक्षिण: खुला आकाश	करून नोटिस	रू 1599955.00 (यथास्थिति 05.04.2021) + व्याज + अन्य खर्चे
<u>ऋणकर्ताः</u> (1) श्री नागेश कुमार राजवंशी पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र राजवंशी, 681/34, ब्रह्मपुरी, नेरठ.— 250002 (2) श्रीमती विनीता राजवंशी पत्नी श्री नागेश कुमार राजवंशी, 681/34, ब्रह्मपुरी, मेरठ.—250002 (3) श्री गौरव बंसल पुत्र श्री सुरेश बंसल, 74, शिव शंकर पुरी, मेरठ.—250002 (4) श्री रितेश कुमार पुत्र श्री सुरेश चंद, 681/34, ब्रह्मपुरी, मेरठ—250002	1083, स्थित ब्रह्मपुरी, मेरठ, क्षेत्रफल 199.40 वर्ग गज, सीमायें: — पूर्व: 38 फीट 2 इंच/रितेश का मकान, पश्चिम: 38 फीट 2	कब्जा नोटिस की तारीख	रू 2619031.00 (यथास्थिति 01.03.2021) + व्याज + अन्य खर्चे
	•		-

दिनांक- 05.10.2021

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.

स्थान -मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी

द्वारका शाखा : एफ-15 एवं 16, प्रथम तल, मनीष ग्लोबल मॉल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली-110077, दूरभाष नं. : 011-41530949, ई-मेल : dwarka@gichfindia.com कॉर्पोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय : नेशनल इंस्युरैन्स बिल्डिंग, छठा तल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-४०००२०, दूरभाष नं. : 22851765/66/67. ई-मेल : corporate@gichf.com वेबसाइट : www.gichfindia.com

सन्दर्भ : सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 के उपनियम (1) के तहत कब्जा सूचना जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी जीआईसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सम्बद्ध तिथियों पर निर्गत माँग सुचनाओं के अनुसार सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित नामधारी आप/कर्जदारों को सम्बद्ध सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए कहा था। आप सभी निर्धारित समय में कथित बकाया राशि का भगतान करने में असफल रहे. अतः जीआईसीएचएफएल ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं इसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा अधिकारों में नीचे वर्णित प्रतिभृति आस्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

क्र.	फाइल नं.	कर्जदार⁄	सम्पत्ति का पता	31.10.2021	मांग सूचना	सांकेतिक
सं.		सह-कर्जदार के नाम		तक कुल बकाया	भेजने की तिथि	कब्जे की तिथि
1.	DL066060 0000237	श्री सर्वजीत	निजी फ्लैट नं. 02, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, एकता-प्रथम अपार्टमेंट, खसरा नं. 482/4 मिन में से, विस्तारित लाल डोरा, ग्राम-मुंडका, नई दिल्ली- 110041	15,79,745/-	18.06.2021	04.10.2021
2.	UP06606 00000300	श्री विकास कुमार मिश्रा	फ्लैट नं. यूजी-1, अपर ग्राउण्ड फ्लोर (एल.आई.जी.), प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 76, कृष्ण वाटिका, सुदामापुरी कॉलोनी, डुंडाहेड़ा, गाजियाबाद, उ.प्र 201009	1,000	18.06.2021	04.10.2021

पुनः, इस सूचना द्वारा कर्जदारों को इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर सम्बद्ध सम्पत्तियों को खाली करके इसका शान्तिपूर्वक कब्जा जीआईसीएचएफएल के सुपूर्द करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी विधि/यों द्वारा बलपूर्वक भौतिक कब्जा करने की कार्यवाही करने तथा/अथवा सरफैसी अधिनियम, 2002 एवं उसके नियमों के तहत प्रावधानित प्रावधानों के अनुसार सम्पत्तियों के निस्तारण करने के लिए बाध्य होगा।

कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों या उनके किसी भाग के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई संव्यवहार सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध यहाँ ऊपर लिखित राशि हेतु जीआईसीएचएफएल के प्रभार का विषय होगा जो पूर्ण भुगतान तक उस पर भावी ब्याज के साथ देय होगा।

तिथि : 06 अक्टूबर, 2021, स्थान : द्वारका कृते जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. ह./- अधिकृत प्राधिकारी

OSBI

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह स्टेट बैंक भवन, 7 वी मंजिल, मैंडम कामा रोड, मुंबई - 400021

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने विदेश स्थित कार्यालयों के केंद्रीयकृत बैंक ऑफिस के लिए आरएफपी में निर्दिष्ट किए गए अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए वेन्डर के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्यूरमेंट न्यूज' पर विज़िट करें.

हस्ताक्षर/-उप महाप्रबंधक (ओ एंड आईएस) स्थानः मुंबई दिनांक: 06.10.2021 आईबीजी, कॉरपोरेट केंद्र मुंबई

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER. PHED, REGION, BHARATPUR

Phone: 05644-222731, e-mail: rj_acebha@nic.in Corrigendum No. 02, NIT Nos. 140/2021-22 The Following corrigendum is hereby issued for the NIB No. 140/2021-

22 of this office. **Activity** Existing Provision | Amended Povision Date & time Up to 6.00 PM, Up to 6.00 PM, 22.10.2021 downloading of bid 29.09.2021 document. Up to 6.00 PM. Date & time for online Up to 6.00 PM, 29.09.2021 22.10.2021 submission of

All other terms and conditions shall remain same as mentioned i original NIT. NIB Code: PHE2122A2526 अधिशाषी अभियन्ता वास्ते UBN No.: PHE2122WSOB05696 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, क्षेत्र भरतपुर DIPR/C/9934/2021

11.30 AM.

25.10.2021

ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली

Date & Time for Opening 11.30 AM, 30.09.2021

document

of Technical bid.

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली– 110001 ओए नं0 22/2019

उत्तरदाताओं राहुल कुमार एवं अन्य 1, प्रबंध निर्देशक, मैसर्स पयुचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत ऑफिस: एस-222, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, नई दिल्ली- 110092,

मैसर्स फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस: डी-247/1, सेक्टर-63, नोएडा, लैंडलाईन नं0 0120-4567893, 0120-4336999, ई-मेलः care@futureworldcare.com

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध रू. 19,74,429/- (रूपये **उन्नीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ उनतीस मात्र)** एवं यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 12.10.2021, सुबह 10.00 बजे अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय द्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सुचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्युनल में आपकी उपस्थिति की चुक की दशा ने इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिथति में किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी के वेबसाइट www.etribunal.gov.in, फोन नं0 011–23748473 पर

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उदेदश्य के लिए लिया जाएगा। (प) सभी अभिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। (ब) रजिस्ट्रार / टेक्युमेंट्स ऑफिसर-I / और रिकवरी ऑफिसर-II द्वारा ली जाने वाली सुनवाई

के मामलों की अगली तारीख के लिए 'मीटिंग आईडी' और 'पासवर्ड' डीआरटी ऑफिशियल में अगली तारीख से एक दिन पहले मिलेगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात् (स) किसी भी योग्यता जो अधिवक्ता / अभ्यर्थी संबंधित अधिकारी से फोन नं0 011–23748473

पर संपर्क कर सकते है।

दिनांक 01 सितम्बर मार्च, 2021 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। द्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार



एरकॉर्ट्स लिमिटेड

(CIN - L74899HR1944PLCO39088)

सार्वजनिक सूचना एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि विशिष्ट संख्या वाले निम्नलिखित शेयर खो दिये गुम या चोरी हो गये हैं। इस बाबत पंजीकृत धारक / धारकों, आवेदक / आवेदकों ने डॉप्लिकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है:

शेयर धारक / धारकों का नाम /	गुम हुए इक्विटी शेयरों
फोलियो नंबर / शेयरों की संख्या	का विवरण (विशिष्ट संख्या)
जुली जितेन वेद/जितेन नारेनदास वेद ESC0057728/ शेयर्स-10	68193806 -68193815
रविन्द्र नाथ गुप्ता ESC0010939/ शेयर्स -100	62726761 -62726810 62726821-62726832 12321810 -12321847
शिब कुमार तोदी	24978109-24978158
ESC0140744/ शेयर्स -100	31228109 -31228158
अनिल वढेरा ESC0162373/ शेयर्स -1	50470595 -50470595
शरद जैन	30441409 -30441458
ESC0140244/ शेयर्स -100	30531884 -30531933
सी. आर चेट्टी	24301 -24400
ESC0019826/ शेयर्स -160	19614593-19614652

किसी भी व्यक्ति के पास, जिनके पास इस तरह के पूर्वीक्त इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई दावा है उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी के साथ लिखित रूप से दावा प्रस्तुत करेना होगा अन्यथा कंपनी मूल शेयर प्रमाण-पत्र को रद्द कर देगी तथा दुप्लिकेट शेयर प्रमाण−पत्र को पंजीकृत धारक / धारकों के आवेदन पर जारी कर देगी।

एस्कॉटर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 15, 5—मधुरा रोड, फरीदाबाद—121003, हरियाणा Sd/-फोनः +91-129-2250222, ई--मेल:corpsl@escorts.co.in सत्येंद्र चौहान कंपनी सेक्रेटरी वेबसाइटः www.escortsgroup.com दिनांकः 05.10.2021 । स्थानः फरीदाबाद एन्ड कम्प्लायंस ऑफिसर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०

सार्वजनिक सूचना एतदद्वारा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ विशेष रूप से नीर्च

लिखित सम्पत्ति के संदर्भ में अपने सुचीबद्ध अधिवक्ता के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरित ग्राहक श्रीमती विजय कुमारी, पत्नी श्री ब्रहम सिंह, निवासीः जे-265, सेक्टर-12, प्रताप विहार गाजियाबाद के स्वामित्व की सेक्टर 07 ⁄**ए में स्थित सम्पत्ति प्लॉट** 7**ए** ⁄66 के टाइटल की जॉच की है।

सम्पत्ति की अनुसूची मकान सं. ७ए/६६, माप १७४.५९ वर्ग मी., सेक्टर-07/ए , सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद) जिसकी चौहद्दी है:

पर्व: 9 मी. चौडा रोड. **पश्चिम**: भूखंड नं. 7ए/81 एवं 82 उत्तरः अन्य भूमि, **दक्षिण**: भृखंड नं. 7ए/65 कि, श्रीमती विजय कुमार, पत्नी श्री ब्रहम सिंह सेन्ट्ल बैंक ऑफ इंडिया की नीचे वर्णित

शाखा से आवास ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति पर एक बिल्डिंग का निर्माण करेंगे तथा उक्त उक्त आवास ऋण उक्त सम्पत्ति के इक्विटैबल बंधक द्वारा प्रतिभत होगा। शरू में प्लॉट नं 7ए/66 उत्तर प्रदेश आवासम विकास परिषद की सम्पत्ति थी तथा उत्तर प्रदेश आवासम विकास परिषद ने प्लॉट नं. ए/66 को ब्रिकी प्रलेख तिथि 24.6.2013 के अनसार श्री हरिराम पुत्र श्री जगरूप को अंतरित कर दिया लेकिन उक्त प्लॉट की खरीद के बाद श्री हरिराम, पुत्र श्री जगरूप का निधन हो गया तथा उनकी मुत्यु के पश्चात उत्तर प्रदेश आवासम विकास परिषद ने उक्त प्लॉट से संबंधित एक अतिरिक्त एरिया, माप 29.03 वर्ग मी. को स्व. श्री

हिर राम पुत्र श्री जगरूप के कानूनी उत्तराधिकारियों, नाम 1) श्रीमती सरस्वती (पत्नी), 2 राजेन्द्र, 3) श्री सुरेन्द्र, 4) श्री धनेश तथा 5) श्री गजेन्दर , सभी पुत्रों) को बिक्री प्रलेख तिथि 14.10.2020 के अनसार अंतरित कर दिया। अतः उसके परिणामस्वरूप उपरोक्त प्लॉट का एरिया 174.59 वर्ग मी. हो गया तथा 1) श्रीमती सरस्वती , पत्नी स्व. हरिराम तथा 2) श्री राजेन्दरा , 3) श्री सुरेन्द्र, 4)श्री धनेश तथा 5) श्री गजेन्दर सभी पुत्र स्व. हरि राम पुनः उक्त सम्पत्ति को श्रीमती विजय कुमारी, पत्नी श्री ब्रहम सिंह को बिक्री प्रलेख तिथि 2.7.2021 के अनसार सौंप दिया। कि. उक्त सम्पत्ति को खरीद के बाद श्रीमती विजय कुमारी, पत्नी श्री ब्रहम सिंह ने पी.एस. विजय नगर, गाजियाबाद में 21.9.2021 को यह शिकायत दर्ज कराई कि बिक्री प्रलेख तिथि 14.1.2020 का अंतिम पृष्ठ जिसपर बिक्री प्रलेख के पंजीकरण के विवरण का एन्डोर्जमेन्ट है, गुम हो गया है।

अब, श्रीमती विजय कुमारी, पत्नी श्री ब्रहम सिंह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएमए**च कॉलेज गाजियाबाद शाखा से आवास ऋण की उगाही कर एक बह-उद्देश्यीय भवन क निर्माण करना चाहते हैं। अतः एतदद्वारा आम जनता के लिये यह सार्वजनिक सचना दी जार्त है कि यदि उक्त सम्पत्तियों या उसके भाग पर बिक्री, विनिमय, बंधक, लेट, लीज, लिएन, चार्ज, मैंटनेंस, लाईसैंस, गिफ्ट, विरासत, शेयर, कब्जा, ईजीमेन्ट, टस्ट, बेक्वेस्ट पोजेशन, एसाइन्मेन्ट अथवा अधिभार या अन्य किसी भी प्रकार का काई अधिकार टाइटल, दावा, मांग अथवा सम्पदा में हित हो, से एतद्द्वारा अनुरोध है कि इसके प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर सभी आवश्यक तथा समर्थक दस्तावेजों के साथ संलग्न ऐसे दावे नीचे वर्णित पते पर लिखित में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि उसमें कोई दावा नहीं है तथा सभी दावे, यदि कोई हो, छोड दिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी अधोहस्ताक्षरित बैंक के पक्ष में बिना किसी अधिभार के दस्तावेजों की पर्व श्रंखला के साथ मल बिक्री प्रलेख तिथि 2.7.2021 को जमाकर उक्त सम्पत्ति के इक्विटैबल मॉर्टगैज क निर्माण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी उन्मुख होंगे।

वरिष्ठ प्रंबधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएमएच कॉलेज, गाजियाबात

सार्वजनिक सुचना

कम्पनी सर्क्युलर्स DNBS(PD) CCNo. 12/02.01/99-2000 तिथि 13 जनवरी, 2002 के पैराग्राफ A(5)(iii) (a तथा कम्पनी सर्क्युलर DNBS (PD) CCNo. 63/02.02/2005-06 तिथि 24 जनवरी, 2002 के साथ पठित अधिसूचना सं. DNBS(PD) CC.No. 11/02.01/99-2000 तिथि 15 नवम्बर, 1999 के अनुपालन में जब कभी भी एनबीएफसी के प्रबंधन तथा नियंत्रण में परिवर्तन होता है, सार्वजनिक सूचना दी जाती है: आम जनता को अत्यंत दुख के साथ सुचित किया जाता है कि हमारी कम्पनी के निदेशक श्री पनिक्कास्सेरी

मनोहरन का 8 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया। कृपया जान लें कि 8 सितम्बर, 2021 से वे अब कम्पनी के कृते एवं के लिये, हमारी कम्पनी क्वीन्सगेट होल्डिंग्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./ बुजेन्द्र सिंह

एमटीवी इन्वेस्मेन्ट एण्ड फाईनेंस

प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं. 12, फर्स्ट फ्लोर, एस-26 आईवरी टॉवर, अजय एनक्लेव, नई दिल्ली - 110018 CIN NO: U74899DL1994PTC061939 ई-मेल आईदी : mtvinvestment@gmail.com

> फोन नं.: 9311336586 सार्वजनिक सुचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एमटीवी इन्वेस्मेन्ट एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड ("कम्पनी") नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 10 अक्टूबर, 2000 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'') के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-14. 01825 के माध्यम से पंजीकृत एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ("एनबीएफसी") है ।

कंपनी के प्रबंधक ने श्री धर्मेन्द्र कुमार को 12.11.2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है और कंपनी के निदेशक श्री ललित कठपालिया 12.11. 2021 को निदेशकपद से इस्तीफा देना चाहते हैं, और श्री सुनंता मैती कंपनी के निदेशक पद पर बने रहेगें । नेनदार सहित यदि किसी व्यक्ति को कथित परिवर्तन पर कोई आपत्ति है तो वह सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, गैर-बैंकिंग पर्यवेदाण विमान, मारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर

सकता है। यह सार्वजनिक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली विनांक 29.09.2021 प. वि.नईदि सं. S330/CMS-VI/ 05.13.165/2021-22 एवं लागू सभी अन्य संयत परिपत्रों एवं विनियमों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद

आवेदक की ओर से और उसके लिए एमटीवी इन्वेरमेन्ट एप्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./-सुमंता मैती दिनांक : 06.10.2021 निवेशक स्थान : नई दिल्ली कीएनए: 07113367

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (CIN: L74210CH2012PLC034105) जिसका पंजीकृत कार्यालय: एससीओ: 156-157 सैक्टर 9सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160031 में हैं,

के मामले मेंआवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" से "गुजरात राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए बृहस्पतिवार, 30 सितंबर 2021 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

एससीओ: 156-157 सैक्टर 9सी, मध्य मार्ग, आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

जेनसोल इंजीनिवरिंग लिमिटेड अनमोल सिंह जग्गी (प्रबंध निदेशक) दिनांक: 05.10.2021 ढीआईएन: 01293305 स्थान: चंडीगढ

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन)

नियम, 2014 के नियम 41

के मामले में

कौटिल्य केएनसी लिमिटेड (CIN: U65910DL2003PLC118339) जिसका पंजीकृत कार्यालयः

7वीं मंजिल, 711 जैना टावर ॥, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में रिधत है, के मामले में,

तदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि

यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 29 सिंतबर, 2021 को आयोजित 17वीं वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है। कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना हैं, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के

चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली— 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर 7वीं मंजिल, 711 जैना टावर ॥, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में भी भेज दे। कृते कौटिल्य केएनसी लिमिटेड

तिथि: 05.10.2021 नरेश धमीजा (निदेशक) डीआईएन:00298923

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

नई दिल्ली

www.readwhere.com